



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2014/ ज्येष्ठ 2, 1936

No. 271]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2014/JYAISTHA 2, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2014

**सा.का.नि. 350(अ).—**औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इन प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी भी आक्षेप या सुझाव पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (पंचम संशोधन) नियम, 2014 है।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,—

(क) अनुसूची थ के भाग 1 में,

(i) प्रविष्टि “रि सोर्सिन ब्राउन” और स्तंभ (2) तथा स्तंभ (3) में आने वाली उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) प्रविष्टि “सोल्वेंट रेड 1” और स्तंभ (2) में आने वाली उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) अनुसूची थ में क्र.सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“31. लिक्विड फाउंडेशन मेक-अप आई एस 14318 : 1996

32. कोल्ड वैक्स-हेयर रिमूवर आई एस 15152 : 2002

33. फेश पैक आई एस 15153 : 2002

34. काजल आई एस 15154 : 2002

35. आक्सीडेशन हेयर डाईज (इमल्शन टाइप) आई एस 15205 : 2005

36. क्रीम ब्लीच आई एस 15608 : 2005”

[फा. सं. एक्स-11014/06/2013- डीएफक्यूसी]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.153 (अ), तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2014

**G.S.R. 350 (E).**—The following draft rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 12 and Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and the notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

### DRAFT RULES

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Fifth Amendment) Rules, 2014.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945,—
  - (a) in Schedule Q, in Part I,—
    - (i) the entry, “Resorcin Brown” and the entries relating thereto occurring in columns (2) and (3) shall be omitted.
    - (ii) the entry, “Solvent Red 1” and the entries relating thereto occurring in column (2) shall be omitted.
  - (b) in Schedule S, after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
 

“31. Liquid foundation make-up IS 14318:1996

32. Cold Wax-Hair remover IS 15152:2002

33. Face pack IS 15153:2002

34. Kajal IS 15154:2002

35. Oxidation Hair Dyes (Emulsion type) IS 15205:2005

36. Cream Bleach IS 15608:2005”

[F. No. X-11014/06/2013-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. F. 28-10/45-H (1), dated 21st December, 1945 and was last amended by notification number G.S.R. 153(E), dated the 5th March, 2014.